



बरसे बदरिया सावन की।
सावन की , मन - भावन की ॥
सावन में उमग्यो मेरो मनवा , भनक सुनी हरि आवन की।
उमड़ - घुमड़ चहुँदिस से आया , दामिन दमकै झर लावन की ॥
नन्हीं - नन्हीं बूँदन मेहा बरसे , शीतल पवन सुहावन की।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर ! आनंद - मंगल गावन की ॥

प्रश्न 1. उपर्युक्त पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है?

- (क) भादो
- (ख) सावन
- (ग) आषाढ़
- (घ) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 2. सावन के महीने में किसका मन उमंग से भर जाता है?

- (क) मीराबाई का
- (ख) यशोदा का
- (ग) कृष्ण का
- (घ) गोपियों का

प्रश्न 3. 'उमग्यो' शब्द से क्या अर्थ है?

- (क) उमंग आना
- (ख) मन भा जाना
- (ग) उत्साहित होना
- (घ) खुश होना

प्रश्न 4. चारों दिशाओं से उमड़ - घुमड़ कर क्या आ रहे हैं?

- (क) उत्साहित
- (ख) उमंग
- (ग) हवा
- (घ) बादल

प्रश्न 5. वर्षा ऋतु में क्या सुहावना लगता है?

- (क) बारिश
- (ख) शीतल पवन
- (ग) बिजली
- (घ) मौसम